

# अपने मॉडम/राउटर को कंफीगर करना


# Aussie Broadband nbn™


## मॉडम/राउटर पर लॉग इन करें

1. वेब ब्राउज़र खोलें।
2. एड्रेस बॉर में **192.168.20.1** एंटर करें।
3. आपको या तो सेट अप विजार्ड से जाने के लिए या फिर मेन मेन्यू पर स्किप करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा। "No, skip to main menu." पर क्लिक करें और अपना यूज़रनेम और पासवर्ड एंटर करें। यदि आपके मॉडम/राउटर को फैक्टरी रीसेट किया गया है, तो यूज़रनेम और पासवर्ड दोनों 'admin' होने चाहिए।
4. अपनी स्क्रीन के बायीं ओर 'Internet' पर क्लिक करें।
5. 'Create New' पर क्लिक करें।
6. 'Description' पर 'Aussie Broadband' लिखें। 'Internet Service' के अधीन 'Ethernet WAN' चुनें। फिर 'Connection Type' के अधीन 'Dynamic IP' चुनें।
7. 'Apply' बटन पर क्लिक करें।
8. 'Apply/Save' बटन पर क्लिक करें।
9. बधाई हो, अब आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएँगे (वायर रहित विवरण के लिए अपनी Aussie Broadband nbn™ कनेक्शन गाइड का पृष्ठ 3 देखें)।

ध्यान दें – इसकी ज़रूरत केवल तब है यदि आपने अपने मॉडम/राउटर को फैक्टरी रीसेट किया है; अन्यथा Aussie Broadband ने विशिष्ट तौर पर आपकी सेवा के लिए हार्डवेयर को पहले से कंफीगर किया है।

## फिक्सड वायरलैस खुद से इंस्टॉल करने की गाइड




 फर्मवेयर अपडेट्स के आधार पर निर्देश बदलाव अधीन हैं। नवीनतम चरण-दर-चरण निर्देशों (तस्वीरों के साथ) के लिए [visit aussiebroadband.com.au/fftnmodem](http://aussiebroadband.com.au/fftnmodem) देखें

और अधिक जानकारी या तकनीकी सहायता के लिए 1300 880 905 पर फोन करें [aussiebroadband.com.au](http://aussiebroadband.com.au)

# अपने nbn™ को जानें

## अपने उपकरण की जानकारी रखें

अब तक आपका nbn™ एक बाहरी एंटीना, वॉल के आउटलेट और nbn™ कनेक्शन बॉक्स पर इंस्टॉल हो गया होगा। ये उपकरण आपके घर में nbn™ कनेक्शन लाने के लिए मिलकर काम करते हैं।



**बाहरी एंटीना के कनेक्शन प्वाइंट**  
बाहरी एंटीना से कनेक्ट होता है। इस पोर्ट से तार डिस्कनेक्ट न करें।

**UNI-D पोर्ट्स**  
आपकी सेवा को एक मॉडम/राउटर की जरूरत होगी, जो आपको इन पोर्ट्स में से किसी एक पोर्ट से कनेक्ट करना होगा।

**पॉवर**  
पॉवर प्वाइंट या nbn™ PSU से कनेक्ट होता है (यदि हो तो)।

## बाहरी एंटीना

बाहरी एंटीना एक विशिष्ट स्थान पर इंस्टॉल किया गया है ताकि आपको सबसे अच्छा सिग्नल मिल सके, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इसके सामने कुछ न रखा जाए।

कृपया अपने nbn™ उपकरण के साथ छेड़खानी न करें, इसे पेंट न करें या अपने स्थान से न हिलाएँ, इसमें nbn™ कनेक्शन बॉक्स और बाहरी एंटीना शामिल है, इन युनिट्स से कनेक्टड किन्हीं तारों सहित।

## आपका nbn™ कनेक्शन बॉक्स आपको क्या बता रहा है?

आपके फिक्सड वायरलैस nbn™ कनेक्शन बॉक्स में कई लाइटें होती हैं जो आपको अपने कनेक्शन की स्थिति का निर्धारण करने की योग्यता देती हैं।

आप अगले पन्ने पर दी गई सारणी का प्रयोग यह पहचान करने के लिए कर सकते/सकती हैं कि क्या आपकी nbn™ फिक्सड वायरलैस सेवा के साथ कोई समस्याएँ हैं और इसकी मरम्मत करने के लिए आप क्या कर सकते/सकती हैं।

सुनिश्चित करें कि आप करीब एक मिनट के लिए लाइटें देखें, यह यकीनी बनाने के लिए कि वे बदल नहीं रही हैं – फिर रंग देखें और यह कि क्या लाइटें टिमटिमा रही हैं जिसका मतलब है कि आपको हमें फोन करने की जरूरत है।

## अपने nbn™ कनेक्शन बॉक्स पर लाइटों की समझना

सूचकांक	आइकन	स्थिति	विवरण	क्या करे on
पॉवर		● गहरा हरा	पॉवर ऑन – AC पॉवर से चल रहा है	कुछ नहीं
		● टिमटिमाता हरा	पॉवर ऑन – बैटरी से चल रहा है (यदि लगी हो तो)	पॉवर सप्लाय की जांच करें
		● गहरा लाल	पॉवर ऑन – बैटरी से चल रहा है (यदि लगी हो तो)/बैटरी कम है	पॉवर सप्लाय की जांच करें
		● रोशनी के बिना	पॉवर ऑफ	पॉवर सप्लाय की जांच करें
स्थिति		● टिमटिमाता हरा	आम संचालन	कुछ नहीं
		● टिमटिमाता ऐम्बर	डिवाइस बूट/शुरू हो रहा है	
		● गहरा हरा	टेस्ट मोड	
		● गहरा लाल	सिस्टम में त्रुटि का पता चला है	
		● रोशनी के बिना	अप्रत्याशित स्थिति	
		● गहरा हरा	ऑनलाइन	
ODU		● टिमटिमाता हरा	एक्टिविटी	
		● गहरा लाल	ऑफलाइन	
		● टिमटिमाता लाल	त्रुटि	
		● रोशनी के बिना	अप्रत्याशित स्थिति	
सिग्नल स्ट्रेथ		● लाल	लो सिग्नल स्ट्रेथ (त्रुटि की स्थिति नहीं दर्शाता है)	सेवा के साथ समस्याएँ नहीं होनी चाहिए – यदि आपको स्पीड से जुड़ी समस्याएँ हो तो 1300 880 905 पर कॉल करें
		● ऐम्बर	मध्यम सिग्नल स्ट्रेथ	कुछ नहीं
		● हरा	हाई सिग्नल स्ट्रेथ	कुछ नहीं
		● रोशनी के बिना	ऑफलाइन	TWNTD में पॉवर नहीं है, पॉवर टर्न ऑन करें और लाइटों की दोबारा जांच करें
		● टिमटिमाता हरा	अप्रत्याशित स्थिति	